



SATIN CREDITCARE NETWORK LTD.

Reaching out!

July 21, 2021

The Manager- Listing Compliance
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai-400051
Scrip Code: SATIN/SATINPP1*

The Manager
Listing Operations
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 539404/890149*

Subject: Newspaper advertisement for final call on the partly paid-up equity shares of Satin Creditcare Network Limited

Dear Sir/Madam,

In continuation to our earlier intimation dated July 19, 2021 and pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, we hereby enclose herewith the copies of newspaper advertisement published in all India editions of Business Standard (English and Hindi) for announcement of final call on partly paid shares.

The above is for your information and record please.

Thanking You

Yours faithfully,
For Satin Creditcare Network Limited


(Vipul Sharma)

Company Secretary & Compliance Officer



Encl: A/a

* Scrip Code SATINPP1 and 890149 representing partly paid equity shares of Rs. 10/- each (Rs. 7.50/- paid-up) stands suspended effective from Thursday, July 15, 2021.

Corporate Office:

Plot No. 492, Phase III, Udyog Vihar,
Gurugram - 122016
Haryana, India

Registered Office:

5th Floor, Kundan Bhawan,
Azadpur Commercial Complex,
Azadpur, New Delhi-110033, India

CIN

: L65991DL1990PLC041796

Landline No

: 124-4715400

E-Mail ID

: info@satincreditcare.com

Website

: www.satincreditcare.com

Rane (MADRAS) LIMITED CIN: L65993TN2004PLC052856 Regd. Office: "MAITHRI", 132, Cathedral Road, Chennai - 600 086. Visit us at: www.ranegroup.com						
Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2021						
(Rs.in Crores except per share data)						
S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated	
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30.06.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021
1	Total Income from Operations	299.79	92.65	1,147.15	340.29	1,267.39
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	4.92	(32.10)	17.46	(11.64)	(52.09)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	4.92	(32.10)	(45.04)	16.43	(52.09)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	3.72	(21.91)	(50.69)	15.23	(41.90)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.50	(20.96)	(47.66)	7.42	(44.11)
6	Equity Share Capital	14.57	12.55	14.57	12.55	14.57
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			293.70		167.32
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not annualised for the quarters)					
1. Basic:		2.55	(17.45)	(39.51)	10.46	(47.66)
2. Diluted:		2.46	(15.97)	(39.51)	10.05	(47.66)


The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website-www.ranegroup.com

Note:

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 20, 2021.
- During the year ended March 31, 2021, the Company / Group had assessed the carrying value of its investments in a subsidiary and considered the fair value changes thereto resulting in a carrying value impairment aggregating to Rs. 62.50 crores being shown as an exceptional item for the quarter and year ended March 31, 2021. In order to carry out the above assessment, projections of future cash flows of the operating step-down subsidiary based on the most recent long-term forecasts, including selling price as well as volumes are estimated over the next five years. The estimation of sales volumes is based on management's assessment of probability of securing the new businesses in the future, adverse business impact and uncertainties arising due to COVID-19 pandemic to the extent known. The impact of COVID-19 on the Company's financial results may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results depending on the circumstances that may evolve in the future.
- The Company's subsidiary in the U.S., Rane Light Metal Castings Inc., (LMCA) was entitled to certain economic relief provided by the U.S. government in order to mitigate the impact of COVID-19 pandemic. Pursuant to such economic relief schemes, during the quarter ended June 30, 2021, LMCA received an approval for forgiveness of the paycheck protection program loan (PPP Loan) from the U.S. Small Business Administration (SBA) for an amount of USD 2.63 million (INR 19.45 crores). Further, LMCA was eligible for employee retention credit (ERC), which was applied for and received from the U.S. Internal Revenue Service during the quarter for an amount of USD 1.16 million (INR 8.62 crores). The aggregate of such amounts received as relief have been recorded as an exceptional income in the consolidated results for the quarter ended June 30, 2021.
- A limited review of the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company has been carried out by the statutory auditors. Corresponding figures for the quarter ended June 30, 2020, included in the above results were reviewed / audited by the previous auditors of the Company.
- COVID-19 pandemic has rapidly spread throughout the world, including India. Governments have taken significant measures to curb the spread of the virus including imposing mandatory lockdowns and restrictions on activities. Consequently, the Company's / Group's manufacturing plants and offices had to be closed down / operate under restrictions for a period of time during the year. These measures have an impact on matters relating to commodity prices, supply chain matters, customer demand, personnel available for work and for being available to access offices etc. The Company / Group has considered the possible effects that may result from the continued effect of the pandemic on the carrying amounts of assets (net of impairment losses), capital and financial resources, profitability, liquidity position, internal financial controls etc. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties, the Company / Group, as at the date of approval of these financial results has used internal and external sources of information and based on current estimates expects that the carrying amount of these assets will be recovered. The impact of COVID-19 on the Company's / Group's financial results may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results depending on the circumstances that may evolve in the future. The Company / Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.
- The Company's operations for the quarter ended June 30, 2020 were suspended for part of the quarter on account of the lockdown announced by the Government of India consequent to the outbreak of COVID-19 pandemic. The results for the quarter ended June 30, 2021 are, therefore, not comparable with the quarter ended June 31, 2020.

For Rane (Madras) Limited
L Ganesh
Chairman

Chennai
July 20, 2021



EQUITAS HOLDINGS LIMITED
 Corporate Identity No. : L65100TN2007PLC064069
 Regd. Office: 410A, 4th Floor, Spencer Plaza, Phase II, No.769, Mount Road, Anna Salai, Chennai-600002
 Tel: 044-4299 5000 / 5027 | Fax: 044-4299 5050
 Web: https://www.equitas.in | Email: secretarial@equitas.in


NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that:

- The 14th Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Equitas Holdings Limited ("the Company") will be held on Thursday, August 12, 2021 at 3.30 PM. I.S.T. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the 14th AGM, in compliance with the General Circulars dated April 13, 2020, April 8, 2020, May 05, 2020 & January 13, 2021 respectively ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), SEBI Circular dated May 12, 2020 & January 15, 2021, and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligation & Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").
- The Annual Report for the Financial Year 2020-21 along with the Notice of AGM have been sent on July 19, 2021 electronically to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent ("RTA") / Depository Participants.
- The Notice of the 14th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 is available on the Company's website at https://www.equitas.in, on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com and on the website of BSE Limited at https://www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com.
- Business as set forth in the AGM Notice may be transacted through the electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Ltd ("CDSL") from a place other than the venue of the AGM ("Remote e-voting") and e-voting at the AGM.
- All the Members are informed that:
 - The instructions for participating through VC and the process of e-voting, including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their email address can cast their vote through remote e-voting are provided as a part of the Notice of 14th AGM.
 - Only those persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the Cut-off Date i.e. August 5, 2021 shall be entitled to participate at the Meeting and either avail the facility of Remote e-voting or vote at the AGM. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purposes only.
 - The Remote e-voting system shall commence at 9 AM IST on Monday, August 9, 2021 & end at 5 PM IST on Wednesday, August 11, 2021. Remote e-voting facility shall be disabled by CDSL after the end of the Remote e-voting period. Once a vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
 - Members who have cast their vote through Remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC, but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and present in the AGM through VC, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
 - Any person, who has acquired shares of the Company and becomes a member after July 9, 2021, being the date for ascertaining the list of shareholders to whom the notice convening AGM was dispatched upto the cut-off date for voting i.e. August 5, 2021, may kindly refer to the notice uploaded in the Company's website at www.equitas.in
 - In case of queries/grievances in respect of attending AGM through VC and voting by electronic means, Members may write to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 022-23058542/43.
- Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, August 6, 2021 to Thursday, August 12, 2021 (both days inclusive).

By order of the Board
for Equitas Holdings Limited,
sd/- **Ms Deepthi R**, Company Secretary

Place: Chennai
Date: July 20, 2021


M.P. HOUSING & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

NOTICE INVITING E-TENDER


Online percentage rate bids for the following works are invited from registered contractors and firms of reputed fulfilling registration criteria :-

System Tender No.	Name of Work	Probable Amount of contract	Completion period (Months)	Date of Purchase and Submission of bids	Date of opening of tenders
2021_MPHID_151181	CONSTRUCTION OF NEW WORK, RENOVATION WORK, BARRIER FREE AND DEVELOPMENT WORK AT GOVT. P.G. COLLEGE GUNA.	Rs. 723.30 Lakh EMD 723300.00 COST OFF FORM Rs. 23600.00 (I/C 18%) (Registered in PWD Centralization System)	18 months i/c rainy season	26.07.2021 At 10:30 A.M to 10.08.2021 At 17:30 Hrs.	Envelopes –A&B 12.08.2021 At 10:30 A.M. Envelopes –C 20.08.2021 At 15.00 Hrs.
2021_MPHID_151182	CONSTRUCTION OF NEW WORK, RENOVATION WORK, BARRIER FREE AND DEVELOPMENT WORK AT GOVT. NEHRU P.G. COLLEGE ASHOKNAGAR.	Rs. 629.58 Lakh EMD 629600.00 COST OFF FORM Rs. 23600.00 (I/C 18%) (Registered in PWD Centralization System)	18 months i/c rainy season	26.07.2021 At 10:30 A.M to 10.08.2021 At 17:30 Hrs.	Envelopes –A&B 12.08.2021 At 10:30 A.M. Envelopes –C 20.08.2021 At 15.00 Hrs.
2021_MPHID_151183	CONSTRUCTION OF NEW WORK, RENOVATION WORK, BARRIER FREE AND DEVELOPMENT WORK AT GOVT. SHRI MADHAVRAO SCINDIA P.G. COLLEGE SHIVPURI.	Rs. 576.29 Lakh EMD 577000.00 COST OFF FORM Rs. 23600.00 (I/C 18%) (Registered in PWD Centralization System)	18 months i/c rainy season	26.07.2021 At 10:30 A.M to 10.08.2021 At 17:30 Hrs.	Envelopes –A&B 12.08.2021 At 10:30 A.M. Envelopes –C 20.08.2021 At 15.00 Hrs.

- Interested bidders can view the detailed NIT on website <http://www.mphousing.in> and <https://mptenders.gov.in>
- The bid document(s) can be purchased only online as per schedule and Tender Portal.
- Amendments to NIT, if any, would be published on website only, and not in newspapers.

Visit us : www.mphousing.in
E-mail : eednhbgun@mp.gov.in
M.P. Madhyam/101358/2021

(PAWAN MARKAM)
E.E., Division-Guna
Mob. : 9926320408, Tel. : 07542-268298


SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

Corporate Identity Number : L65991DL1990PLC041796
Registered Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi- 110033, India
Corporate Office : Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase - III, Gurugram, Haryana - 122016, India
(Tel: +91 124-4715400); Website: www.satincreditcare.com; E-mail: secretarial@satincreditcare.com

NOTICE OF FINAL CALL TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED ("THE COMPANY") AS ON THE RECORD DATE I.e. JULY 16, 2021

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), read with the relevant rules made thereunder, the Final Call Notice has been sent in electronic mode to members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participant(s) as on the Record Date i.e. July 16, 2021, unless the members have registered their request for the hard copy of the same. Physical copy of the Final Call notice along with the instructions and payment slip has been sent vide permitted modes of dispatch, at the registered addresses of those members: a) who have not registered their e-mail address with the Company or Depository Participant(s); or b) who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of the Final Call Notice on July 19, 2021.

On July 6, 2021, the management of the Company under the authority of the Board of Directors of the Company has fixed July 16, 2021 as the Record Date for the purpose of ascertaining the holders of Partly Paid-up Equity Shares (₹ 7.50/- paid-up) to whom the notice for final call money would be sent. The same was intimated to Stock Exchanges on July 6, 2021.

Accordingly, the final call notice has been served as per the details given herein below:

Payment Period	From	To	Duration
	Friday, August 6, 2021	Friday, August 20, 2021	15 days

Mode of Payment

- Online ASBA** - Through the website of the SCSBs*
- Physical ASBA#** - By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs*
- Online** - Using the 3-in-1 online trading-demat-bank account provided by some brokers
- R-WAP** - Using the R-WAP facility at www.linkintime.co.in [for residential individual shareholders Only]
- Cheque/Demand Draft** - Made payable to:

for residential shareholders	Satin Creditcare Network Ltd Partly Paid-up Shares final call money A/c – R
for non-residential shareholders	Satin Creditcare Network Ltd Partly Paid-up Shares final call money A/c – NR

*Please click here to refer the list of existing SCSBs [Self Certified Syndicate Banks].
#Please visit <https://www.satincreditcare.com> to download the Physical ASBA application or payment slip.

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020 dated December 8, 2020, shareholders can also make a call money payment by using facility of linked online trading-demat-bank account (3-in-1 type accounts), provided by some of the brokers. Shareholders must log into their demat account and choose the name of the company 'SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED' and further click on the option to 'Make Call Money Payment' and proceed accordingly. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Shareholders to note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer.

The Company or the Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders. In case the shareholder opts to pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First joint Applicant, Final Call Notice No., DP ID No./ Client ID No. and No. of Partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented at IndusInd Bank Limited branches at the following locations on or before Friday August 20, 2021:

For Resident Shareholders	For Non-Resident Shareholders
Ahmedabad: World Business House, M. G. Road Nr. Parimal Garden, Ellis Bridge Ahmedabad - 380 006; BANGALORE: Ground Floor, Centenary Building, No. 28, M. G. Road, Bangalore - 560 001; Chennai: No.3 Village Road Nungambakam, Chennai - 600 034; Gurugram: Block A, Sushant Lok, Phase I, Tower B, First India Place, Gr. Floor, Mehrauli- Gurugram Road, Gurugram 122002, Haryana; Hyderabad: H.No.8-2-277/3 & 3A, Laxmi Plaza, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad-500 034; Indore: Industry House 15 Agra Mumbai Road, Old Palasia, Indore - 452 001; Jaipur: Sangam Complex, Gr. Flr. Church Road, Jaipur 302 001; Kolkata: Savitri Towers, 3A, Upper Wood Street, Kolkata -700 017; Lucknow: Ground Floor, HT House 25, Ashok Marg, Lucknow-226001; New Delhi: Dr. Gopal Das Bhawan 28, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001; Pune: 2401, Gen. Thimmappa Rd. (Cantonment), Pune - 411 001; Surat: G-2, Empire State Bldg., Near Udhana Darwaja, Ring Road, Surat 395 002; Mumbai: Opera House; IndusInd House, 425, Dadasaheb Bhadkamkar Marg, Mumbai - 400 004	Mumbai: Opera House, IndusInd House, 425, Dadasaheb Bhadkamkar Marg, Mumbai - 400 004

Shareholders residing at a place in locations wherein the ASBA facility or Bank's collection centers are not available should send their call money along with the completed acknowledgment slip by registered post/speed post at the office of the Registrar to the Issue: Link Intime India Private Limited, (Unit: Satin Creditcare Network Limited), C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli [West], Mumbai- 400083, Maharashtra, India, Tel No.: +91-22-4918 6200, stating the requisite details along with Cheque/Demand Draft payable at Mumbai, so that the same are received on or before last date of payment of Final call money i.e. Friday, August 20, 2021.




Shareholders are required to make the Call money payment by August 20, 2021. Failure to pay the final call money, as aforesaid shall render the Partly Paid-up Equity Shares, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act and the LOF.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9836B01023 representing Partly Paid-up Equity Shares of ₹ 10/- (₹ 7.50/- paid-up) has been suspended by the Stock exchanges on July 15, 2021. The process of corporate action for converting the Partly Paid-up Equity Shares of ₹ 10/- each (₹ 7.50/- paid-up) to Fully Paid-up Equity Shares of ₹ 10/- each to the Investors' demat accounts under ISIN INE836B01017, is estimated to be completed within 2-3 weeks from the last date of payment of the final call money stipulated under this notice.
- In case of non-receipt of the final call money notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate call money notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.satincreditcare.com or the Registrar's website: www.linkintime.co.in. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP & Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the final call money.
- All correspondence in this regard may be addressed to:
Link Intime India Private Limited
[Unit: Satin Creditcare Network Limited]
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli [West], Mumbai-400083, Maharashtra, India
Telephone: +91-22-4918 6200; +91-22-4918 6195;
E-mail: satin.finaicall@linkintime.co.in
Contact person: Mr. Sumet Deshpande
Website: www.linkintime.co.in
SEBI registration number: INR000004058

For Satin Creditcare Network Limited
Sd/-
(Vipul Sharma)
Company Secretary & Compliance Officer

Date: July 20, 2021
Place: Gurugram

BS INSIGHT TALKS – MIKE MURALI ON HOW TO MOVE FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Smilestones are stepping stones for an individual's growth said Mike Murali, Chief Fun Officer, and Director – Marketing, Caggemini India, while speaking at the 'BS Insight Talks' on the topic 'Adding Extra to Ordinary!' It is an ongoing webinar series organised by Business Standard for the management students pan-India.


Mr Murali said, "all are born to become stars and each one of us have to take the extra mile to become a superstar." He elaborated on the right ingredients that can be added to achieve this. Mentioning that every 3 years the things that one learns become obsolete and only 35% of the 3 lakh MBA graduates passing out every year get into a career. Mr Murali said organisations look at the essential curriculum activities a student has embarked upon more than his academic skills.


He explained the five E's: Evolution, Education, Environment, Experiment, and Enjoyment which are essential to growing and emphasised continuous education. True leaders, according to him, do not create followers but, leaders. He also shared the 10

commandments of Happiness and how the team at Caggemini was able to be trendsetters like entering the Guinness Book of Records, planting trees, etc.

Reading newspapers or minimum 7 pages of a book each day, spending eight minutes every day focusing on our body and making a bucket list at the start of a year will change our outlook and, each one of us should have a 'Me' time and talk to yourself, said Mr Murali.

Mr Murali also answered the questions raised by the students who were able to discover through this session what makes winners different from the rest.




NSE
National Stock Exchange of India Ltd.
 'Exchange Plaza', Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051

NOTICE


Notice is hereby given that the following trading member of the National Stock Exchange of India Ltd. (Exchange) has requested for the surrender of its trading membership of the Exchange:


Sl. No.	Name of the Trading Member	SEBI Regn. No.	Last Date for filing complaints
1.	SSG Portfolio Private Limited	INZ000234936	Sept. 21, 2021

The constituents of the above-mentioned trading member are hereby advised to lodge complaints immediately, if any, against the above mentioned trading member on or before the last date for filing complaints as mentioned above and no such complaints filed beyond this period will be entertained by the Exchange against the above mentioned trading member and it shall be deemed that no such complaints exist against the above mentioned trading member or such complaints, if any, shall be deemed to have been waived. The complaints filed against the above mentioned trading member will be dealt with in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange / NSE Clearing Limited. The complaints can be filed online at www.nseindia.com>Domestic Investors>Complaints>Register an E-complaint. Alternatively, the complaint forms can be downloaded from www.nseindia.com>Domestic Investors>Complaints>Register a complaint offline>Complaints against Trading Members or may be obtained from the Exchange office at Mumbai and also at the Regional Offices.

For National Stock Exchange of India Ltd.
Sd/-
Chief Manager -
Membership Compliance

Place: Mumbai
Date: July 21, 2021




THE RAMCO CEMENTS LIMITED
 Registered Office: "Ramamandiram", Rajapalayam - 626 117. Tamilnadu
 CIN : L26941TN1957PLC003566. Website : www.ramcocements.in

NOTICE OF 63RD ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

1. Notice is hereby given that the Sixty Third Annual General Meeting of the Company ("63rd AGM") will be convened on Thursday, the 19th August 2021 at 10.00 AM through Video Conference / Other Audio Visual Means ("VC") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars of Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, issued pursuant to conducting of Annual General Meeting.

2. The Notice of the 63rd AGM and the Annual Report for the year 2020-21 including the financial statements for the year ended 31st March 2021 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository").

3. The instructions for e-voting and for participating in the AGM are provided in the Notice of the AGM. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.ramcocements.in and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited: www.bseindia.com and NSE Limited: www.nseindia.com and CDSL's e-voting portal at <https://www.evotingindia.com>

4. Members holding shares in physical mode and have not registered their E-Mail ID may update the same by communicating to the Company at the address / E-Mail ID given below. Members holding shares in demat mode may contact their respective depository participant for the same.

5. The Cut-Off Date is 12-08-2021, for determining the eligibility of the shareholders to vote by remote e-voting or in the AGM.

6. Members holding shares in physical mode and members who have not registered their E-Mail ID with the Company / Depository Participant and the members who have acquired shares after the dispatch of the notice and holding shares as of Cut-Off Date, may cast their vote through remote e-voting or through the e-voting during the meeting, by following the procedures mentioned in Point No: 11(D) or (F) of the Notice convening the AGM.

Members may also note:

- Voting Rights shall be in proportion to the Equity Shares held by the Members as on the Cut-Off Date.
- Remote e-voting will commence at 9.00 A.M. on Monday, the 16th August 2021 and end at 5.00 P.M. on Wednesday, the 18th August 2021. During this period, Members holding shares as on the Cut-Off Date, may cast their votes electronically.
- Those Members, who will be present in the AGM through VC and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM.
- Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC but shall not be entitled to cast their votes again.
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

Corporate Office:
THE RAMCO CEMENTS LIMITED
98-A, Dr. Radhakrishnan Road,
Mylapore, Chennai - 600 004.
E-Mail: investorrelations@ramcocements.co.in

For THE RAMCO CEMENTS LIMITED,
K.SELVANAYAGAM,
SECRETARY.
20-07-2021



WHAT'S ON PAPER MATTERS.

Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices

For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in


Insight Out

 bsindia
  bsindia
 business-standard.com

सत्र में गन्ने का बकाया 21,000 करोड़ रुपये

संजीव मुखर्जी

नई दिल्ली, 20 जुलाई

किसानों का गने का बकाया मई, 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 21,321 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें से 18,820 करोड़ रुपये की भारी भ्रकम राशि का भुगतान मई, 2021 तक नहीं हो पाया, जो सितंबर, 2021 में समाप्त होने जा रहे चालू सत्र में आपूर्ति किए गए गन्ने का बकाया है। वहीं 2,501 करोड़ रुपये बकाया पहले के वर्षों का है।

2020-21 में गन्ने के कुल बकायों में से करीब 63 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किसानों का है, जहां चुनाव होने जा रहे हैं। शेष बकाया महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के किसानों का मिलाकर है।

उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान अगर तेजी से नहीं होता है तो इसका असर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पड़ सकता है, क्योंकि राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में गन्ना और गन्ने पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले इलाकों में 86 से 90 विधान सभा क्षेत्र आते हैं।

सबसे अहम है कि गन्ना इलाके की ज्यादातर विधानसभाएं राज्य के पश्चिमी इलाकों में हैं, जहां केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 6 महीने से ज्यादा समय से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है।

कुछ दिन पहले किसानों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल राजधानी

लखनऊ पहुंचा था और गन्ने के बकाये के भुगतान की मांग के साथ अन्य मसलों को रखा गया था। खबरों के मुताबिक किसानों ने राज्य सरकार के कार्यालयों के सामने डेरा डाल दिया था और उन्होंने बकाये के भुगतान की मांग की थी।

कारोबारियों व उद्योग जगत के सूत्रों ने कहा कि गन्ने का बकाया बहुलग्न्यादा होने की एक वजह रिकॉर्ड निर्यात और चीनी का ज्यादा मात्रा में एथनॉल के लिए इस्तेमाल है, जबकि पिछले 2 साल से ज्यादा समय से चीनी की मिल की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि औसतन चीनी कंपनी अभी भी 85 प्रतिशत से सालाना आमदनी चीनी की बिक्री से करती है।

चीनी के एमएसपी में अंतिम बार बदलाव फरवरी, 2019 में किया गया था और उसके बाद से गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) बढ़ा, लेकिन चीनी का एमएसपी नहीं बढ़ा। इस समय चीनी का एमएसपी 31 रुपये किलो है, और नीति आयोग सहित विशेषज्ञों की कई समितियों की सिफारिशों के बावजूद एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं की गई।

सूत्रों ने कहा कि चीनी उद्योग ने सरकार से कहा है कि एमएसपी कम से कम 3 रुपये बढ़ाकर 34 रुपये किलो किया जाना चाहिए, जिससे कांशील पूंजी में सुधार हो सके और इससे गन्ने का बकाया निपटाने में मदद मिलेगी।

बैंकों की बड़ी राशि बढ़े खाते में

मनोजित साहा

मुंबई, 20 जुलाई

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने नॉरेंद्र मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद 7 वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपये की भारी भ्रकम राशि बढ़ते खाते में डाली है। इस अवधि के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा बैंकों में डाली गई पूंजी की तुलना में यह राशि दोगुने से ज्यादा है।

2014-15 और 2020-21 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 3.37 लाख करोड़ रुपये पूंजी डाली है। वित्त वर्ष 19 (2018-19) के दौरान सबसे ज्यादा 1.06 लाख करोड़ रुपये पूंजी डाली गई। वित्त वर्ष 21 में सरकार ने 4 पीएसबी में 14,500 करोड़ रुपये पूंजी डाली है।

वहीं 2014 से 2021 के बीच सरकारी बैंकों ने 8.07 लाख करोड़ रुपये कर्ज बढ़ते खाते में डाला है। वित्त वर्ष 19 में सबसे ज्यादा 1.83 लाख करोड़ रुपये बढ़ते खाते में डाला गया, जबकि 2019-20 (वित्त वर्ष 20) में 1.75 लाख करोड़ रुपये बढ़ता खाते में डाला गया है।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कर्ज को बढ़ते खाते में डाले जाने के कारण सरकारी बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) इन वर्षों के दौरान 1.32 लाख करोड़ रुपये हो गईं। कर्ज को बढ़ते खाते में डाले जाने का मामला पिछले 4 साल में बढ़ा है और इन वर्षों में हर साल

सरकारी बैंकों को मिली रकम से दोगुनी रकम गई बढ़ते खाते में



■ 7 साल में सरकारी बैंकों का बढ़ता खाता सरकार के पूंजी डालने की तुलना में दोगुने से ज्यादा

■ 8 लाख करोड़ रुपये बढ़ता खाते में डालने से बैंकों को फंसा कर्ज घटाने में मिली मदद

■ बैंकों के बैलेंस शीट की सफाई 2015-16 में शुरू हुई, जब रिजर्व बैंक ने बैंकों के खातों की विशेष जांच शुरू की

भी चलती है, जिससे कि उनकी बैलेंस सीट दुस्त रहे, कर लाभ मिल सके और पूंजी का अधिकतम इस्तेमाल हो सके। वहीं बढ़ते खाते में डाले गए ऋण के कर्जदार पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार बने रहते हैं। बैंकों द्वारा कर्ज को बढ़ते खाते में डालने के बाद भी उधारी लेने वाले की देनदारी बनी रहती है। आंकड़ों से पता चलता है कि वसूली के माध्यम से एनपीए में कमी और किसी खास साल में बढ़ते खाते में डाली गई राशि से कम रहा है। 2016-17 और वित्त वर्ष 20 के बीच के 4 साल में सरकारी बैंकों ने 5.7 लाख करोड़ रुपये बढ़ते खाते में डाला, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों

ने 1.54 लाख करोड़ रुपये कर्ज को बढ़ते खाते में डाला।

कुल कर्ज में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत है।

बैंकों के बैलेंस शीट की सफाई 2015-16 में शुरू हुई, जब रिजर्व बैंक ने बैंकों के खातों की विशेष जांच शुरू की, जिसे संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के नाम से जाना जाता है। बैंकिंग नियामक ने पाया कि बैंक संपत्ति वर्गीकरण टालकर खराब कर्ज छिपा रहे हैं। खातों की समीक्षा की गई और कर्जदाताओं से कहा गया कि वे अपने 200 उधारी लेने वालों को सब स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत करें। इसके परिणामस्वरूप खराब कर्ज में बढ़ोतरी हुई और इससे बैंकों का मुनाफा प्रभावित हुआ। इसके बाद सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में पूंजी निवेश शुरू की, खासकर इसका इस्तेमाल खराब कर्ज के प्रॉविजनिंग के लिए किया गया।

छोटे शहरों के अमीरों के हैं बिजनेस जेट तक के सपने

अरिंदम मजूमदार

नई दिल्ली, 20 जुलाई

मैसूर जैसे छोटे शहरों से कारोबार करने की अपनी चुनौतियां होती हैं। मध्यम दर्जे के एक एफएमसीजी ब्रांड कंपनी के मालिक को उस वक़्त कारोबार करना कठिन लगा था जब उन्हें मुंबई के लिए उड़ान भरने के लिए बेंगलूर समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण एक महत्त्वपूर्ण कारोबारी बैठक स्थगित करनी पड़ी थी।

मैसूर हवाईअड्डा छोटा है। हवाईअड्डा होने के कारण इस मामले में अलग है कि यहां मध्यम और बड़े विमान न तो उतर सकते हैं और न ही उड़ान भर सकते हैं।

पिछले महीने उन्होंने अपने कारोबारी साझेदार के साथ मिलकर नए ब्रांड की लीयरजेट 60 खरीदी है जो मध्यम श्रेणी की बिजनेस जेट है। वह कहते हैं, 'अब सुबह में उड़ान भरना, सभी बैठकें निपटाना और वापस घर आना बहुत आसान हो गया है।'

जयंत नादकर्णी ने हाल ही में फ्लाइटशेयर्स नाम से एक कंपनी शुरू की जिसका मकसद विमान का आंशिक स्वामित्व मुहैया कराना है। आंशिक स्वामित्व पश्चिम का एक प्रचलित मॉडल है जिसमें कई मालिक मिलकर विमान की खरीद, पर्टेन्दारी और परिचालन की लागतों में हिस्सेदारी करते हैं। नादकर्णी कहते हैं, 'चूंकि देश के छोटे शहरों से बड़े कारोबार हो रहे हैं जहां पर बुनियादी ढांचे पर दबाव होता है। हमने ऐसे शहरों से संबंध रखने वाले कई कारोबारियों में अपनी सहूलियत के लिए अपना निजी विमान रखने की खाहिश देखी है लेकिन कई बार लागत इसमें बाधक बन जाती है।' उन्होंने कहा कि कंपनी के पास सितंबर तक पहला विमान आ जाएगा।

बढ़ते राजस्वों, फैलते कारोबारी साम्राज्य और बढ़ती आकांक्षाओं के साथ कंपनियों को देश के नगरों और छोटे शहरों से आलीशान उत्पादों की मजबूत मांग जरूर आ रही है तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है।

इटली की सुपरकार निर्माता लैंबोर्गिनी

का ही उदाहरण लीजिए, जिसकी पिछले दो वर्षों में भारत में हुई कारों की कुल बिक्री में से 25 फीसदी बिक्री गुवाहाटी, भुवनेश्वर, सेलम, त्रिची जैसे गैर-महानगरीय शहरों में हुई है। लैंबोर्गिनी इंडिया के प्रमुख शरद अग्रवाल ने कहा, 'हम अपने भौगोलिक पहुंच को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत के छोटे शहरों से संभावना पर विचार कर रहे हैं।'

अग्रवाल इसका कारण इन शहरों में

सफल कारोबारों की बढ़ती संख्या के साथ साथ कंपनी की ओर से बिक्री के बाद की सेवाएं हर जगह मुहैया कराने के लिए किए गए प्रयास को बताया

है। अग्रवाल कहते हैं कि नगरों के खरीदारों से जहां पूछताछ में भारी उछाल आई है वहीं उन्होंने कई चुनौतियां को भी सामना किया। खरीदार पूछते हैं, 'हम इसे कहाँ चलाएंगे? जहां लगने जैसी बुनियादी ढांचा से संबंधित समस्या हो तो हम इसका आनंद कैसे उठा पाएंगे।' कंपनी ने आपके शहर में लैंबोर्गिनी नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जहां पर यह संभावित खरीदारों से उनके नजरिये से जुड़ती है। वह कहते हैं, 'ग्राहक बनने वाले सफल बारोबारी हैं, बहुत सारे मामलों में वे पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। लैंबोर्गिनी परिवार में शामिल करने के लिए उन्हें एक नया एहसास देने का यह हमारा तरीका है।' कंपनी ने फ्लाईंग डॉक्टर नाम से आप्चर सेल सेवा शुरू की है, जिसके तहत वह मझोले शहरों में रखरखाव दल को भेजने की कवायद करती है। एक और लज्जरी कार विनिर्माता मर्सिडीज बेंज भी वृद्धि के इस रणनीति पर चल रही है और तमाम शुरुआती स्तर के पेशकश कर रही है। कंपनी ने हाल ही में दो नई कारें पेश कर अपना एएमजी पोटफोलियो मजबूत किया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के सेल्स एवं मार्केटिंग के वाइस प्रेसीडेंट संतोष अय्यर ने कहा, 'हमारे लिए एएमजी रणनीति ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने के लिए है, जिससे वे अपने को महंगे मॉडल में अपग्रेड कर सकें।'

महज आधे रास्तों पर उड़ान

अनीश फडणीस

मुंबई, 20 जुलाई



रेटिंग एजेंसी इक्रा ने आज कहा कि सरकार की क्षेत्रीय वायुमार्ग कनेक्टिविटी (आरसीएस) की योजना के तहत आवंटित 766 मार्गों में से सिर्फ 47 प्रतिशत परिचालन में हैं और कॉविड-19 की लहर के कारण यह योजना आगे भी प्रभावित होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना 2016 में शुरू की थी, जिससे असेवित और कम सेवा वाले हवाईअड्डों को जोड़ा जा सके। इस योजना के तहत पहली उड़ान अप्रैल, 2017 में हुई।

नए आरसीएस मार्गों, जहां परिचालन शुरू किया गया, की संख्या तेजी से बढ़ी और वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 20 में इनकी संख्या क्रमशः 102 और 120 रही। लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण वित्त वर्ष 21 में इनकी संख्या गिरकर 77 पर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 39 प्रतिशत

बिना विमान सेवा वाले हवाई अड्डे और कम सेवा वाले हवाईअड्डे परिचालन में रहे। इस योजना का वित्तपोषण प्रमुख मार्गों के फ्लाइट टिकट पर 50 रुपये शुल्क लगाकर किया जाता है। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण में इस कोष का अंशदान 80 प्रतिशत है, जो एयरलाइंस को दिया जाता है, शेष 20 प्रतिशत वित्तपोषण राज्य सरकारें करती हैं।

इक्रा में कॉर्पोरेट रेटिंग के एसपीवी और ग्रुप हेड शुभम जैन ने कहा, 'उड़ान योजना लागू करने में सुस्त प्रगति की वजह बुनियादी ढांचा के उन्नयन में देरी और हवाई

अड्डों की तैयारी है।

कुछ आवंटित मार्गों पर मांग कम है और वहां के मौसम की स्थिति का अनुमान लगाना कठिन है। इसकी वजह से परिचालन में अस्थिरता है और कुछ एयरलाइंस को परिचालन बंद करना पड़ा। महामारी की दूसरी लहर, जो मार्च, 2021 में आई, ने भी उड़ान योजना पर असर डाला है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 100 असेवित और कम सेवा वाले हवाईअड्डों को चालू करने ने 2024 तक कम से कम 1,00 आरसीएस मार्ग का लक्ष्य रखा है।

बीएस सूडोकू 4105										परिणाम संख्या 4104									
	7	9			5		4			8	4	6	7	2	9	5	1	3	
8		5		3	4					9	1	5	4	3	6	8	7	2	
				1	9	7				2	7	3	5	8	1	4	9	6	
										6	2	1	8	5	3	7	4	9	
										3	9	7	6	1	4	2	8	5	
										4	5	8	2	9	7	3	6	1	
										7	3	2	1	6	8	9	5	4	
										1	8	9	3	4	5	6	2	7	
										5	6	4	9	7	2	1	3	8	

कैसे खेलें? **बहुत आसान**

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

<p>Shareholders residing at a place in locations wherein the ASBA facility or Bank's collection centers are not available should send their call money along with the completed acknowledgement slip by registered post/speed post at the office of the Registrar to the Issue: Link Inttime India Private Limited, (Unit: Satin Creditcare Network Limited), C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083, Maharashtra, India, Tel No.: +91-22-4918 6200, stating the requisite details along with Cheque/Demand Draft payable at Mumbai, so that the same are received on or before last date of payment of Final call money i.e. Friday, August 20, 2021.</p> <p>Shareholders are required to make the Call money payment by August 20, 2021. Failure to pay the final call money, as aforesaid shall render the Partly Paid-up Equity Shares, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act and the LOF.</p> <p>Shareholders may also note that:</p> <p>i. The ISIN IN9836B01023 representing Partly Paid-up Equity Shares of ₹ 10/- (₹ 7.50/- paid-up) has been suspended by the Stock exchanges on July 15, 2021. The process of corporate action for converting the Partly Paid-up Equity Shares of ₹ 10/- each (₹ 7.50/- paid-up) to Fully Paid-up Equity Shares of ₹ 10/- each to the Investors' demat accounts under ISIN INE836B01017, is estimated to be completed within 2-3 weeks from the last date of payment of the final call money stipulated under this notice.</p> <p>ii. In case of non-receipt of the final call money notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate call money notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.satincreditcare.com or the Registrar's website: www.linkintime.co.in. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP & Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the final call money.</p> <p>iii. All correspondence in this regard may be addressed to:</p> <p>Link Inttime India Private Limited (Unit: Satin Creditcare Network Limited) C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, Maharashtra, India Telephone: +91-22-4918 6200; +91-22-4918 6195; E-mail: satin.finaical@linkintime.co.in Contact person: Mr. Sumet Deshpande Website: www.linkintime.co.in SEBI registration number: INR000004058</p>	<p>For Satin Creditcare Network Limited Sd/- (Vipul Sharma) Company Secretary & Compliance Officer</p>
<p>Date: July 20, 2021 Place: Gurugram</p>	

► क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली

दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 253 रुपये की तेजी के साथ 47,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,847 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। जबकि, चांदी 61 रुपये से गिरावट के साथ 65,730 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 65,791 रुपये प्रति किलो था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,813 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 25.06 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही।

लखनऊ

गेहूं दड़ा 1700/1735, गेहूं शरबती 2600/2700, चारल शरबती सेला 3900/4000, स्टीम 4700/4800, लालमती 3550/3600, चावल (सोना) 3300/3350, दाल अरहर सवा नं.

8000/8100, पटका 8900/9400,

रिजेशन 6600/6900, चना दाल 5900/ 6100, चना देशी छना 5700/5800, चना चापा छना 6000/6100, उषो प्योर रेसन 2310, मटर विदेशी 7400/7500, उड़द साबुत 7400/7450/7850, दाल उड़द (काली) 7650/8750, उड़द धोया 8000/ 9400, मसूर छोटी 6650/6975, मलका 7100/7400, किराना: जीरा 14400/ 15500, लालमिर्च गुंदूर 13500/18000, हल्दी बिजाम पल्ली (50 किलो) 4600/ 4800, धनिया एमपी 7400/10600, छोटी इलायची (किलो) 1200/1900, बड़ी इलायची 540/640, कालीमिर्च (किलो) 440/560, सुपारी (किलो) 440/480, सोंफ मोटी 8400/11000, मंगरेल 21000/22000, चिरंजी (किलो) 1000/1075, मखाना 540/700

कानपुर

गेहूं लूज 1725/1735, जी 1625/1650, चावल मसूर 2000/2100, चावल मोटा

दिल्ली

1900/1950, देशी चना 5100/5150, चना छना 5900/5950, दाल चना 5750/ 5850, पिचकी 4300/4500, मटर दाल 7000/8000,अरहर लेमन 6300/6400, दाल अरहर 8400/9000, सुशाल 7200/7500,उड़द एसक्यू 7150/7250, एफक्यू 6400/6450, राजमा चित्रा 10800/12800, मूंग 5300/5500, मसूर छोटी 6700/6900, छोटी 7000/7400, सरसों 7100/7150, तिल सफेद 9200/9300, सोया (टीन) 2400/2425, तेल सरसों कच्ची घाी घैट पेड (टीन) 2400/2475, सरसों खल 2750/2850, पामोलिन 2325/2375, वनस्पति घी (सूपी एफओआर) 2025/2050, मधुसूदन देशी घी 6200, वासुदेव 6000, परम प्रीमियम 6200, पदम श्री 6150, लालाघर 6150, अलसी 7400/7600, धनिया: लोकल 7200/7400, राजस्थान 7400/7800, बड़िया 8800/9400, हल्दी 8300/9000, जीरा 14900/17500,

दिल्ली

उत्तर प्रदेश

पंजाब

आवाचन 14000/18000, मेथी 6500/ 7000, मखाना 5000/750, कालीमिर्च (किलो) 570/640, लालमिर्च (किलो) तेजा 165/190, (334) न. 135/155, सुपारी (किलो) केरल 450/480, कर्नाटक चिकनी 440/450, गोला 19500/20000

चंदौसी

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1080, बोल्ड फिस्टल (12 नं.)1140, फ्लैक 1080, डीएमओ 852, स्टपीन लैंस बोल्ड 1165

मुजफ्फरनगर

गुड़ (40 किलो): बाकू (कोल्ड) 1160/1200, रसकट 1040/1060, चीनी मिल डिली. (क्वि.) (जीएसटी अतिरिक्त):

खतौली 3300, सिहोरा 3240, देवबंद 3230, थाना भवन 3225, बुढ़ना 3225, शमली 3210, चीनी हाजिर 3500/3600

हपुड़

अनाज-दाल: गेहूं 1745/1750, चावल परमल 2200/2250, डुकीकेल बासमती सेला 4800/4900, बासमती 1121 स्टीम

6000/6100, चना 5200/5400, चनादाल 5800/5900, कबली चना 7200/8500, राजमा देशी चित्रा 10500/20000, मटर दाल 6200/6500, अरहर लेमन 6300/ 6400, दाल अरहर 8200/9000, मसूर 6400/6700, उड़द देशी 6500/7000, दाल उड़द 7600/8600, धोया 7700/9000, मूंग सूपी 5400/5600, मूंग दाल 7700/8900, गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 7400/7450, खल: सरसों 3000/3100, चना छिलका 2350/2450, राजमा

जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य) (प्रति चाइंट)135, राइसब्रान (अखाद्य) 130, खल सरसों 2900, सरसों (टाटा) 22500, अनाज: गेहूं 1800/1840, दाल (50 किलो)1015, मैदा 1120, चोकर (45 किग्रा) 900, चोकर (30 किग्रा) 480, मक्की बिहार 1900/1920

एनएनएस